

14th November, 2025

Listing Department

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers

**Dalal Street** 

Mumbai - 400 001

Scrip Code: 505160

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, Plot No. C-1, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai - 400 051

Symbol: TALBROAUTO

Sub: Submission of Newspaper publication of Extract of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2025

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing copies of Newspaper Publication of Extract of Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September, 2025 as published in Business Standard (Hindi & English) newspaper on 14<sup>th</sup> November, 2025.

You are requested to take the above on your records.

Thanking You.

Yours faithfully
For Talbros Automotive Components Limited

Seema Narang Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above



# AI content norms unimplementable, IAMAI tells govt

New Delhi, 13 November

The current draft of the proposed amendments for labelling and classification of synthetically generated information (SGI) are "unimplementable" and could "result in large-scale disruptions to various segments of India's digital economy," social media and internet intermediaries have told the Ministry of Electronics and Information Technology

In their submission through the industry bodyInternet and Mobile Association of India (IAMAI), the companies have said that the existing rules and laws, such as the Information Technology (IT) Act of 2000, the IT Rules of 2021, and the Bharatiya Nyaya Sanhita, already cover all aspects of dealing with such synthetically generated information. "In its current form, the definition of SGI would sweep in routine, good-faith image, audio-visual and text editing that is common across journalism, advertising, education, research, and personal expression," the IAMAI has said.

For example, a separate "cross-cutting" clause for labelling and prohibiting the spread of synthetically generated information could "expand or duplicate obligations, complicate interpretation of due diligence standards, and increase the risk of inconsistent enforcement" across these platforms. Instead of prescribing specific measures for synthetically generated content, the IT ministry should maintain a technology-neutral stance for removing any unlawful content, the IAMAI said.

In its submission, the industry body has also said that the current proposed definition for synthetically generated information is "vague and highly subjective".

In the proposed amendments to the IT Rules, the IT ministry has said that any information generated by the use of artificial intelligence and appearing "reasonably authentic" would be classified as synthetically generated and therefore, needs a declaration from the user if such content is uploaded or distributed publicly through any social media or internet intermediary.

This, the IAMAI has said, will lead to misclassification, as both intermediaries and creators will face uncertainty. "For example, a colour-corrected photograph or denoised audio track will typically appear authentic to lay viewers, yet it is not misleading in any material sense. Conversely, satire, parody, or clearly stylised content can be 'inauthentic' by design without any risk of deception," the



### Al labelling

- IAMAI says existing IT laws already cover synthetic content
- Draft rules could duplicate obligations, causing enforcement confusion
- Firms warn labelling tech unreliable,
- burdensome, and premature ■ Proposed rules require AI-generated content to be clearly declared
- Intermediaries asked to verify user declarations and label content

IAMAI has said in its submission.

Last month, the IT ministry released a draft of the proposed amendment to the ITRules of 2021, stating that all social media users who utilise AI to generate and upload content on the internet or any social media platform must declare that AI was used in the process. The IT ministry had given stakeholders until Thursday to comment on the proposed amendments to the IT Rules.

In the proposed amendments, the IT ministry had also placed a larger onus on social media and internet intermediaries. It said that all internet intermediaries that allow the use of AI for generating or creating content "ensure that every such information is prominently labelled or embedded with a permanent unique metadata or identifier".

 $The intermediaries should also \, ensure \, that$ they have the necessary tools and technical measures to verify the accuracy of the declaration made by the user. Further, the intermediaries should also ensure that the user declaration on the use of AI for content generation is "prominently displayed", the IT ministry has proposed.

The IAMAI has, however, said that the inclusion of such a label at this stage is "premature" as the technologies that enable labelling of such content are not yet "reliable, interoperable, or privacy-preserving, and may impose significant burdens without commen-

# Drone deliveries to begin in Mumbai from early 2026

UDISHA SRIVASTAV

New Delhi, 13 November

After Delhi and Bengaluru, another metropolitan city, Mumbai, is set to witness drone-enabled package deliveries as logistics firm Skve Air on Thursday signed a memorandum of understanding (MoU) with the Siddha Sejal group, a designled real estate developer. The delivery services commence from the first quarter of next year, making it Mumbai's first residential drone delivery initiative.

The MoU was signed betweenSiddhagroupDirector Samyak Jain, Sejal group Director Dhirraj Gada, and Skye Air's Founder and Chief Executive Officer (CEO) Ankit Kumar. As Air will set up a drone delivery residential complex into a for Bengaluru."

dential project in Wadala. range of 30 km.

to announce our strategic part-pany's expansion plans, Kumar nership with the Siddha Sejal said: "The idea is to have a group,

marking a defining SKYE AIR CURRENTLY SERVES 27 PIN CODES IN GURUGRAM, TWO EACH step in IN FARIDABÁD AND shaping the future GHAZIABAD, AND ONE of drone- PIN CODE IN BENGALURU powered

deliveries in Mumbai. We are entirety of the city, but in spesetting a new benchmark for cific locations and pin codes, tech-enabled urban mobility, part of the understanding, Skye transforming the Siddha Sky for us. This quarter is reserved

infrastructure in Mumbai for smart logistics node. This is Siddha Sky residents, with its more than a delivery revol-Skye-pod installation at a resi- ution; it is the beginning of a new era in smart city infra-Notably, according to the com-structure." Skye Air is currently pany, each drone can cover an serving 27 pin codes in Guruaerial distance of 1 km in just gram, two pin codes each in one minute, with a maximum Faridabad and Ghaziabad, and one pin code in Bengaluru.

On the development, Speaking earlier with Kumar said: "We are delighted Business Standard on the com-Speaking earlier with quarterly expansion

into one city. Starting next year, we will be eyeing Pune, then going to Hyderabad, Mumbai, and Kolkata. It's not that we are going to be in the

which are high-demand areas



TECHDIGEST @ mybs.in/tech

#### OnePlus 15 launched in India

OnePlus has launched its latest flagship smartphone, the OnePlus 15, in India. The device features a triple 50MP rear camera setup, a 6.78-inch display with a 165Hz refresh rate.

#### Gemini Live gets updated

Google is rolling out an update for Gemini Live aimed at making conversations sound more natural and expressive.



Date: November 13, 2025

Place : Gurugram

### TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED

CIN: L29199HR1956PLC033107

Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, Faridabad-121003 (Haryana) Tel No.: 0129-4960482, 2251482 | Website: www.talbros.com, Email: seema\_narang@talbros.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

	CONSOLIDATED						STANDALONE					
	С	Quarter ended		Half Year ended Year ended		l Quarter ended			Half Year ended		Year ended	
Particulars	30-Sep-25	30-Jun-25	30-Sep-24	30-Sep-25	30-Sep-24	31-Mar-25	30-Sep-25	30-Jun-25	30-Sep-24	30-Sep-25	30-Sep-24	31-Mar-25
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	21,690.03	21,054.41	22,015.81	42,744.44	42,939.43	84,473.03	21,831.39	21,054.41	22,133.61	42,885.80	43,057.23	84,590.83
Profit/(Loss) before exceptional Items and tax	2,901.97	2,794.11	3,000.60	5,696.08	5,642.37	11,943.29	2,553.45	2,394.26	2,698.24	4,947.71	5,035.50	10,287.27
Exceptional items	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Profit/(Loss) before tax	2,901.97	2,794.11	3,000.60	5,696.08	5,642.37	11,943.29	2,553.45	2,394.26	2,698.24	4,947.71	5,035.50	10,287.27
Net Profit/(Loss) after tax	2,310.06	2,219.64	2,341.40	4,529.70	4,402.87	9,443.27	1,961.54	1,819.79	2,039.04	3,781.33	3,796.00	7,787.25
Total Comprehensive income/(loss) for the period (Comprising profit after tax and other comprehensive income after tax)	1,760.50	3,417.71	2,088.92	5,178.21	6,118.46	9,977.75	1,411.25	3,017.14	1,787.50	4,428.39	5,513.43	8,318.83
Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56
Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (for the period - not annualised) Basic (Rs.) Diluted (Rs.)	3.74 3.74	3.60 3.60	3.79 3.79	7.34 7.34	7.13 7.13	15.30 15.30	3.18 3.18	2.95 2.95	3.30 3.30	6.13 6.13	6.15 6.15	12.62 12.62
stac.												

The above is an extract of the detailed format of quarterly and half yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and half yearly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.talbros.com) and can also be accessed through the QR code given below.

These standalone and consolidated financial results for the quarter and half year ended on 30 September 2025 have been reviewed and recommended for approval by the Audit Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Talbros Automotive Components Limited ("the Company") at their respective meetings held on 13 November 2025. The figures for the quarter ended 30 September 2025 and 2024 are the balancing figures between the unaudited figures in respect of half year ended on that date and the published year to date figures upto the first quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review. The financials results for the quarter and half year ended 30 September 2025 have undergone "Limited Review" by the Statutory Auditors of the Company. Mr. Anuj Talwar, JMD is duly authorised by Board to sign the financial results for submission to stock exchanges



For Talbros Automotive Components Limited

Anuj Talwar Joint Managing Director DIN: 00628063



इन्फ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संतुलन

प्रवेश केवल आमंत्रण द्वारा। अधिक जानकारी एवं आमंत्रण के लिए संपर्क करें -ज्योति कुमारी 8858955992 | आयुषी सिंह 8887541289

Associate Sponsors























business-standard.com







# Funding Foundation of the Future

# **India Infrastructure Finance Company Limited**

(A Govt. of India Enterprise)

5th FLOOR, BLOCK 2, PLATE A & B, NBCC TOWER, EAST KIDWAI NAGAR, NEW DELHI - 110023 Extract of Standalone Financial Results for the period ended 30th September 2025 CIN No. U67190DL2006GOI144520

Website: www.iifcl.in, E-mail: information@iifcl.in, Phone:+91-11-24662777

(₹ in Lac)

		Standalone								
SI. No.	Particulars	Quarte	Ended	Half Yea	Year Ended					
NO.		30-09-2025 (Unaudited)	30-09-2024 (Unaudited)	30-09-2025 (Unaudited)	30-09-2024 (Unaudited)	31-03-2025 (Audited)				
1	Total Income from Operations	1,70,931.98	1,61,518.83	3,34,446.67	2,93,009.35	6,18,639.44				
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	39,343.86	31,895.05	95,935.24	1,00,496.56	2,30,209.89				
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	39,343.86	31,895.05	95,935.24	1,00,496.56	2,77,552.92				
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	30,264.08	25,124.87	71,921.05	81,281.71	2,16,477.44				
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	30,134.03	25,096.33	71,921.77	81,138.81	2,16,127.13				
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	9,99,991.62	9,99,991.62	9,99,991.62	9,99,991.62	9,99,991.62				
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves )	7,02,464.63	5,11,630.37	7,02,464.63	5,11,630.37	6,39,468.30				
8	Net Worth	17,02,456.25	15,11,621.99	17,02,456.25	15,11,621.99	16,39,459.92				
9	Debt Equity Ratio	4.28	3.74	4.28	3.74	3.88				
10	Weighted Average Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) - *									
	1. Basic eps (₹) :	0.30*	0.25*	0.72*	0.81*	2.16				
	2. Diluted eps (₹) :	0.30*	0.25*	0.72*	0.81*	2.16				
11	Debenture Redemption Reserve	54,568.28	54,568.28	54,568.28	54,568.28	54,568.28				

\*NotAnnualised

Place: New Delhi

- a) The above is an extract of the detailed format of quarterly/half yearly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial results are available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and
- b) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (BSE and NSE) and can be accessed on www.bseindia.com and www.nseindia.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee at their Meeting held on 13th November 2025 and approved by the Board of Directors of the company at their Meeting held on 13th November 2025.
- The above results had undergone limited review by an Independent Chartered Accountant Firm as per the Regulation 52 (2)(a) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- e) Figures of the previous periods have been regrouped/rearranged whereever necessary, in order to make them

For and on behalf of the Board of Directors India Infrastructure Finance Company Limited

(Palash Srivastava) Managing Director DIN No.: 2007911

Dated: 13.11.2025









LIC HFL

### **SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED**

CIN: L74999DL1987PLC029553

Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi -110029

Tel. 0124 - 4518900

E-mail: investors@sandhar.in Website: www.sandhargroup.com





**ACCELERATING GROWTH** 

THROUGH **INNOVATION** 

#### EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2025

		(₹	Consol in lakhs, except o	idated earnings per shar	e)	Standalone (₹ in lakhs, except earnings per share)					
SI. No.	Particulars	Quarte	rended	Six Months ended	Year ended	Quarte	r ended	Six Months ended	Year ended		
		30 September 2025	30 September 2024	30 September 2025	31 March 2025	30 September 2025	30 September 2024	30 September 2025	31 March 2025		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Revenue from Operations	1,27,037.37	98,416.31	2,36,046.21	3,88,450.22	80,502.52	74,056.73	1,53,314.64	2,91,303.56		
2	Net Profit for the period (before Tax, exceptional items and share of profit in joint ventures)	9,430.02	4,865.62	12,872.22	17,257.79	9,469.94	5,049.62	12,925.68	18,309.95		
3	Net Profit for the period (before Tax after exceptional items and share of profit in joint ventures)	9,568.24	5,005.36	13,199.62	18,459.36	9,469.94	5,049.62	12,925.68	18,614.28		
4	Net Profit for the period (after Tax, exceptional items and share of profit in joint ventures)	7,337.59	4,002.02	10,138.85	14,164.24	7,458.36	3,675.05	9,998.59	13,962.71		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income/(Loss) after Tax)	7,827.26	4,238.61	11,135.67	14,227.13	7,905.13	3,609.22	10,571.94	13,847.64		
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07		
7	Total Reserves	-	-	-	1,07,911.05	-	-	-	1,08,636.24		
8	Earnings Per Share (Face value of Rs.10/- per share) (not annualised for quarter/half year)										
	1. Basic:	12.19	6.65	16.84	23.53	12.39	6.10	16.61	23.20		
	2. Diluted:	12.19	6.65	16.84	23.53	12.39	6.10	16.61	23.20		

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Six Months ended 30 September 2025 of Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Six Months ended, Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE – www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on Company's website www.sandhargroup.com.

For Sandhar Technologies Limited JAYANT DAVAR Chairman, Managing Director and Chief Executive Officer

DIN:00100801



Place: Gurugram (Haryana)

talbr

दिनांक : नवम्बर 13, 2025

स्थान : गुरुग्राम

टेलब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोर्नेट्स लिमिटेड

# सीआईएनः L29199HR1956PLC033107

पंजीकृत कार्यालयः 14/1, दिल्ली मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा) फोन नं: 0129-4960482, 2251482 | वेबसाइट: www.talbros.com, ई—मेल: seema\_narang@talbros.com

# 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त द्वितीय तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक के एकल एवं समेकित अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश्

			समे	केत			एकल					
विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त अर्धा वर्ष समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त अर्ध वर्ष		समाप्त वर्ष		
	30-सित-25	30-जून-25	30-सित-24	30-सित-25	30-सित-24	31-मार्च-25	30-सित-25	30-जून-25	30-सित-24	30-सित-25	30-सित-24	31-मार्च-25
	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल आय	21,690.03	21,054.41	22,015.81	42,744.44	42,939.43	84,473.03	21,831.39	21,054.41	22,133.61	42,885.80	43,057.23	84,590.83
अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ / (हानि)	2,901.97	2,794.11	3,000.60	5,696.08	5,642.37	11,943.29	2,553.45	2,394.26	2,698.24	4,947.71	5,035.50	10,287.27
अपवादात्मक मदें	_	_	_	-	_	-	1	_	-	_	_	-
कर पूर्व लाभ / (हानि)	2,901.97	2,794.11	3,000.60	5,696.08	5,642.37	11,943.29	2,553.45	2,394.26	2,698.24	4,947.71	5,035.50	10,287.27
कर पश्चात् निवल लाभ / (हानि)	2,310.06	2,219.64	2,341.40	4,529.70	4,402.87	9,443.27	1,961.54	1,819.79	2,039.04	3,781.33	3,796.00	7,787.25
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर पश्चात् लाभ/(हानि) और कर पश्चात् अन्य व्यापक आय शामिल)	1,760.50	3,417.71	2,088.92	5,178.21	6,118.46	9,977.75	1,411.25	3,017.14	1,787.50	4,428.39	5,513.43	8,318.83
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 2/- प्रत्येक)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56
प्रति शेयर आय (* 2/- प्रत्येक) (अवधि के लिए – गैर वार्षिकीकृत)												
ਸ੍ਰੁल (₹)	3.74	3.60	3.79	7.34	7.13	15.30	3.18	2.95	3.30	6.13	6.15	12.62
तनुकृत (₹)	3.74	3.60	3.79	7.34	7.13	15.30	3.18	2.95	3.30	6.13	6.15	12.62
_ ^ ×												

- टप्पाणया:— उपरोक्त, सेबी (सुवीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल द्वितीय तिमाही और अर्दुवार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। द्वितीय तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वैबसाइटॉ (www.bseindia.com) एवं www.nseindia.com) और कम्मनी की वैबसाइट www.labros.com पर भी उपलब्ध हैं और क्यूआर कोड़ को भी स्कैन करके देखा जा सकता है।
  30 सितंबर 2025 को समाप्त द्वितीय तिमाही और छमाही के लिए इन एकल और समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई है और ऑडिट समिति द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश्व की गई है और तद्नुसार 13 नवंबर 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में टैलब्रोस ऑटिट कोपोनेंट्स लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 30 सितंबर 2025 और 2024 को समाप्त द्वितीय तिमाही के आंकड़े उस तारीख को समाप्त छमाही के संबंध में असंबद्ध आंकड़ों और संबंधित वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक प्रकाशित वर्ष-दर-वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़ों हैं। जीमित समीक्षा के अधीन थें। 30 सितंबर 2025 को समाप्त द्वितीय तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों की कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा "सीमित समीक्षा" की गई है। श्री अनुज तलवार, जेएमडी को स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय परिणामों पर इस्तक्षर करने के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है।



कृते टैलब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड

संयुक्त प्रबंध निदेशक डीआईएन : 00628063

एम एम दी सी MMŤČ



एमएमटीसी लिमिटेड

सीआईएन: L51909DL1963GOI004033 (भारत सरकार का एक उद्यम)

कोर-1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 ईमेल: mmtc@mmtclimited.com वेबसाइट: www.mmtclimited.com

30/09/2025 को समाप्त तिमाही और अर्ध वार्षिक के लिए स्टैंडअलोन और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

	(प्रारी रायर उटा की ठाउँकर, कराड़												
			स्टैं डअलोन					समेकित					
		तिमाही के अंत में छमाही के अंत में			वर्ष के अंत में	तिमाही	के अंत में	छमाही व	वर्ष के अंत में				
क्रम सं.	विवरण	30-Sep-25 (अलेखापरीक्षित)	30-Sep-24 (अलेखापरीक्षित)			31-Mar-25 (लेखा परीक्षित)		30-Sep-24 (अलेखापरीक्षित)	30-Sep-25 (अलेखापरीक्षित)	30-Sep-24 (अलेखापरीक्षित)	31-Mar-25 (लेखा परीक्षित)		
1	परिचालन से कुल आय	1.10	1.56	2.46	2.21	2.69	1.10	1.56	2.46	2.21	2.69		
2	कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों से पहले)	14.33	11.65	60.20	98.02	111.53	14.33	11.65	60.20	98.02	111.53		
3	संयुक्त उद्यम के लाभ / (हानि) का हिस्सा (कर के बाद)	-	-	-	-	-	37.22	9.89	44.81	10.97	17.10		
4	कर से पहले शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	392.33	39.40	438.21	81.63	97.20	429.55	49.29	483.02	92.60	114.30		
5	कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	133.59	38.16	170.26	69.77	69.53	170.81	48.05	215.07	80.74	86.63		
6	कुल व्यापक आय जिसमें कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) और कर के बाद अन्य व्यापक आय शामिल है	107.14	51.11	176.05	83.59	101.69	144.37	61.00	221.16	94.60	118.55		
7	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹ 1)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
8	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को छोड़कर)			1482.10	1287.95	1306.05			1,773.35	1,523.65	1,552.19		
9	प्रति शेयर आय (₹1 ∕ – प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं):												
	(क) मूल	0.89	0.25	1.14	0.47	0.46	1.14	0.32	1.43	0.54	0.58		
	(बी) तरल	0.89	0.25	1.14	0.47	0.46	1.14	0.32	1.43	0.54	0.58		

# नोट्सः

- (1) उपरोक्त परिणामों की समीक्षा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा 13.11.2025 को आयोजित बैठक में की गई तथा उसी दिन आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
- कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52 के तहत अपेक्षित इन वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
- पिछली तिमाहियों / वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, तुलनीय बनाने के लिए, तदनुसार पुनः समूहीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 और 52 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.nseindia.com और www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.mmtclimited.com) पर उपलब्ध है।

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 13-11-2025



निदेशक मंडल के आदेश से sd / (अनूपा शंकरनकुट्टी नायर) निदेशक (वि) Din : 11138663

(पति शेयर देटा को छोद्धकर करोद्ध में)

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैक कार्यालय : लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002 परिशिष्ट IV [(नियम 8(1)]

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एव पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ('अधिनियम') के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ('नियमावली') व नियम ९ के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, नीचे संक्षिप्तिकृत अनुसार ऋणकर्ता को मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उसे नीचे संक्षिप्तिकृत अनुसार सूचना में अंकित राशि + इस राशि पर प्रोद्मूतकृत ब्याज एवं अन्य शुल्कों का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत, यहां इसमें प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों फ

साँकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन—देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, यहां नीचे संक्षिप्तिकृत अनुसार एक राशि + इस राशि पर प्रोद्भूतकृत ब्याज एवं अन्य शुक्कों हेतु **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	आवेदक(कों) एवं सह—आवेदक(कों) के नाम	अचल संपत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि	अधिग्रहण सूचना की तिथि	माँग सूचना के अनुसार राशि	अधिग्रहण का प्रकार
1.	आवेदक(गण):— सुश्री रामा बिंद्रा	आवासीय भूखंड सं. 612 से युक्त संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो सेक्टर		13.11.2025	<b>रु</b> . याज और अन्य शुल्क।	साँकेतिक अधिग्रहण
	सह-आवेदक(गण):- श्री स्थाम सुंदर बिंद्रा ऋण खाता : 14011085534	21-बी, हरियाणा, अर्बन डेवलपमेंट अधारिटी, फरीदाबाद, हरियाणा- 121001 में स्थित हैं मकान सं. एफसीए 32/1/2 के भाग के रूप में, यादव की	–129 से युक्त संप	त्ति के समस्त वह भ	गग तथा अंश, क्षेत्रफल 100	) वर्ग गज, खसरा सं.
2	आवेदक(गण):— श्री गंगा राम भाटी सह—आवेदक(गण):—	मकान सं. एफसीए—129 से युक्त संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, क्षेत्रफल 100	17.27.751.01	<b>13.11.2025</b> साथ में	<b>रु</b> . राशि पर ब्याज	साँकेतिक अधिग्रहण
	श्री सोनू भाटी	वर्ग पान नवान मं २० /४ /	a <del>à</del> 2000 <del>à</del>	क्या में आजन	कॉनोनी उंचा गांव	जीव बन्नामान

राशि बकाया राशि उपरोक्तानुसार प्लस माँग सूचना की तिथि से प्रोद्भूतकृत भावी ब्याज और अन्य शुल्क।

प्राधिकृत अधिकारी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

फरीदाबाद, हरियाणा— 121004 में स्थित हैं।

### विनायक वाणिज्य लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 28, स्टिल्ट फ्लोर, देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, साइटः www.vinayakvanijya.co.in, दूरभाषः 9079738420, ईमेल आईडीः <u>vvanijya**1985@**gmail.com</u>

CIN: L52110DL1985PLC020109 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए

अनांकेक्षित एकल वित्तीय परिणामों का सारांश (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47(1) (बी)

•		समाप्त तिमा	ही	समाप्त	समाप्त वर्ष	
विवरण	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.202
	(अनांकेक्षित)	(अनांकेक्षित)	(अनांकेक्षित)	(अनांकेक्षित)	(अनांकेक्षित)	(अंकेक्षित)
परिचालनों से राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य आय	2.24	2.23	2.23	4.47	5.43	9.91
अवधि के लिए निवल लाभ/ (हानि)(कर, विशिष्ट तथा/या असाधारण मदों से पहले)	-1.94	2.22	-2.19	-0.28	-1.14	1.10
करोपरांत अवधि के लिए निवल लाम/(हानि) (विशिष्ट तथा/या असाघारण मदों के उपरांत)	-1.94	2.22	-2.19	-0.28	-1.14	0.80
अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय [अधि (करोपरांत) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत) के लिए लाभ/(हानि) सम्मिलित]	-1.94	2.22	-2.19	-0.28	-1.14	0.80
इक्विटी शेयर पूँजी	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60
आरक्षित निधि (पुनर्मूल्बांकन आरक्षण निधि रहित) जैसा कि पूर्ववर्ती वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है)	-	-	-	-	-	79.80
प्रति शेयर उपार्जन (रु. 10/- प्रत्येक) (जारी एवं बंद परिचालन के लिए)						
1 . बेसिक	-0.20	0.23	-0.23	0.03	-0.12	0.08
2. डाइलुटेड	-0.20	0.23	-0.23	0.03	-0.12	0.08

के पास दायर तिमाही एवं छमाही के विस्तृत वित्तीय परिणामों का सारांश है। तिमाही/छमाही के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> तथा कंपनी की वेबसाइट <u>www.vinayakvanijya.co.in</u> पर उपलब्ध है। \_\_ कते विनायक वाणिज्य लिमिटेड

मुख्तार सिंह तारीख : 12.11.2025 डीआईएनः 06525800

#### इंडसइंड बैंक, 499, प्रथम तल, कोहाट एक्केव, 🕯 Indusind Bank पीतम पुरा, नई दिल्ली - 110034

# स्वर्ण की ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे उत्लिखित उचारकर्ताओं और अन्य जनों ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड से स्वर्ण ऋण सुविवा प्राप्त की है। ऋण के प्रतिनुगतान में विफलता और समझौते के नियमों व शर्तों क उल्लंघन के कारण, इन ऋणों के समक्ष गिरवी रखा गया सोना अब खुली सार्वजनिक नीलामी के लिए निर्धारित है। संबंधित नीलामी आय/बोली राशि उनके/उधारकर्ताओं के संबंधित ऋण खातों और लिंक्ड ऋण खातों जमा की जाएगी।

गिरवी रखे गए सोने की नीलामी 'जहाँ है जैसा है, जो है जैसा है और वहां जो भी है' आधार पर की जाएगी नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को इंडसइंड बैंक की वेबसाइट www.lnduslnd.com और अनुमोदित नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उल्लिखित नियमों व शर्तों का पालन करना आवश्यक है। यह नीलामी इंडसइंड बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनके वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

बोली दस्तावेज, घोषणापत्र, सामान्य नियम और शर्तें, ये इंडसइंड बैंक की वेबसाइट nttps://www.Indu

प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेकानुसार बिक्री के किसी भी नियम और शर्त में संशोधन या परिवर्तन करने

जीएल खाता संख्या ग्राहक का नाम शाखा संपर्क नंबर नोएडा सेक्टर 51 प्रमोद कुमार 8909647400 25.44 ग्राम नोएडा सेक्टर 51

704001235736 नोएडा सेक्टर 51 46.51 ग्राम

बोली जमा करने की अंतिम तिथि इस सूचना की तिथि से 17.11.2025 को सायं 05.00 बजे तक है। नीलाम की तिथि 18.11.2025 को मध्या. 11.00 से दोपहर 12.00 बजे तक है। ऋणकर्ताओं के पास नीलामी आरंम होने से पहले पूरा बकाया ऋण

ऐसा करने पर, वे इंडसइंड बैंक लिमिटेड के नियमों और शतों के अनुसार गिरवी रखे गए सोने को पुन प्राप्त कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली

#### परिशिष्ट IV-ए (नियम 8(6) का प्रावधान देखें) अचल संपत्तियों की नीलामी की बिक्री सूचन

रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ ("नियमावली") के नियम ८(६) एवं ९(१) के प्रावधान के साथ पठि वेत्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अच प्रतिगत आस्तियों की बिक्री की ई-नीलामी बिक्री सचना।

तद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से **उधारकर्ता** और **बंधककर्ता(ओं)** को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अवल संपत्तियां, जो प्रतिभूत लेनदार यानी एडलवाइस एसेट रिकेस्ट्रवशन कंगनी लिमिटेड के पास बंधक हैं, जो ईएआरसी ट्रस्ट एससी 453 ('ईएआरसी') के ट्रस्टी के रूप में अपनी बामता में कार्य कर रही हैं, जिसक कब्जा ईएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी **("एओ")** के पास है, उसे ई—नीलामी के माध्यम से 16 दिसंबर 202 को दोपहर 12:00 बजे से अप. 1:00 बजे तक ई-नीलामी एजेंसी मैसर्स ई-प्रोक्योरसेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेर ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ उनकी वेबसाइट/पोर्ट https://edelweissarc.auctiontiger.net पर "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी वहां है" औ 'कोई सहारा नहीं' आधार पर रु. 684,19,93,413 /— (छह सौ चौरासी करोड़ उन्नीस लाख तिरानबे हजार चार सौ तेरह मात्र) 28 फरवरी 2023 के अनुसार देय एवं भुगतानयोग्य, साथ ही उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित लेनदार को भगतान किए जाने तक, 1 मार्च 2023 से पुनर्भुगतान/वसूली तक संविदागत मूल्यों पर राशि पर निर्धारि

भावी ब्याज एवं चूक ब्याज के साथ, की वसूली करने हेतु बेचा जाएगा। नीलामी के लिए रखी गई प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण संपत्ति का विवरण

भुखंड संख्या आई बी–2, टिवन डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सेक्टर 10, रोहिणी, नई दिल्ली के वे सभी टुकड़े औ खंड, जिनका क्षेत्रफल 7232.81 वर्ग मीटर है और जिनकी सीमाएँ इस प्रकार हैं पूर्व में : सड़क, पश्चिम में : आई-बी-3, उत्तर में : सड़क, दक्षिण में : खुली

संपत्ति पर निर्मित / निर्मित होने वाली सभी इमारतों और संरचनाओं के साथ—साथ, वर्तमान और भविष में सभी एफएसआई, टीडीआर आदि और इसके द्वारा गठित सुरक्षा के जारी रहने के दौरान किसी भी समय सभी संरचनाएँ, निर्माण, फिटिंग, फर्नीचर, और उपरोक्त मुखंडों या उसके किसी भी भाग के संबंद में सभी पेड़, बाड़, हेज, खाई, रास्ते, सीवरेज, नालियाँ, जलमार्ग, स्वतंत्रताएँ, विशेषाविकार, साझा क्षेत्र मार्गाधिकार, सुखाधिकार, संलग्नक आदि, जो किसी भी प्रकार से या किसी भी प्रकार से संबंधित हैं ससे संबंधित या सामान्यतः धारित, अधिभोगित या उसका आनंद लिया जाता है या उससे संबंधि या उससे संबद्ध माना जाता है और बंधककर्ताओं की समस्त संपदा, अधिकार, शीर्षक, हित, संपत्ति

# आरक्षित मूल्य, ई-नीलामी का विवरण और अचल संपत्ति का विवरण इस प्रकार है :

				(रु. में)				
आरक्षित मूल्य		धरोहर राशि जमा	निरीक्षण की तिथि	नीलामी की तिथि				
₹. 235,00,00,000/-	रु	23,50,00,000/-	24.11.2025	16.12.2025				
बोलीदान में वृद्धि	i वृद्धि							
बोली जमा करने की अंबि	तेम तिथि	15 दिसंबर 2025 को सायं 5:00 बजे से पहले						
ई-नीलामी पोर्टल		https://edelweissarc.auc	tiontiger.net					
हेल्पडेस्क		09265562821, 09265562818, 09978591888 are@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net						
ई—नीलामी की तिथि एवं समय विसंबर 2025 (मंगलवार) दोपहर 12:00 से अप. 1:00 बजे, 5 मिनट प्रत								

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया ईएआरसी की वेबसाइट अर्थात् https://www.edelweissarc.in/ दिए गए लिंक को देखें। अधिक जानकारी के लिए, आप अंकिता गोयल, संपर्क संख्या 988856689 ईमेल : Rishabh.jhabak@edelweissarc.in और Ankita.goel@edelweissarc.in से संपर्क कर सकते हैं। दिनाँक : 14 नवंबर 2025

कृते एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेर